



## नीतिआयोग और भारतीय उद्योग परसिंघ के बीच साझेदारी

### संदर्भ

हाल ही में सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने के लिये नीतिआयोग और भारतीय उद्योग परसिंघ (CII) ने साझेदारी प्रारंभ की है।

### प्रमुख बंदि

- CII और नीतिआयोग ने आपस में तीन वर्षों के लिये साझेदारी की है और इस संबंध में एक सहमतिपत्र पर हस्ताक्षर किये हैं।
  - इस साझेदारी के तहत वशिष्ट गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है जिनका उद्देश्य नमिनलखिति क्षेत्रों में कार्य करना है:
1. सतत् विकास लक्ष्य (SDG) में योगदान हेतु कारोबारियों और उद्योगों के लिये वजिन एवं कार्यकलाप एजेंडा।
  2. वार्षिक स्थिति रिपोर्ट।
  3. क्षेत्र वशिष्ट सर्वोत्तम प्रथाओं से जुड़े दस्तावेज।
- CII ने 'SDG की प्राप्ति हेतु पूरी दुनिया के लिये भारतीय समाधान' नामक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में प्रत्येक SDG और कारोबारी नहितितार्थों के बारे में वसितार से बताया गया है।
  - CII 2018-19 की वर्तमान थीम 'भारत का अभ्युदय: उत्तरदायी, समावेशी, सतत्' सतत् विकास का एजेंडे के अनुरूप है।

### नीतिआयोग

- 1 जनवरी, 2015 को थकि टैंक के रूप में अस्तित्व में आए नीतिआयोग का मुख्य कार्य न्यू इंडिया के निर्माण का वजिन एवं रणनीतिक मसौदा बनाना तथा कार्ययोजनाएँ तैयार करना है।
- केंद्र सरकार की नीति निर्धारण संस्था के रूप में नीतिआयोग देश भर से सुझाव आमंत्रित करके जन-भागीदारी एवं राज्य सरकारों की भागीदारी से नीतियाँ बनाने का काम करता है।
- 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री ने योजना आयोग को भंग करने की घोषणा की थी।

### भारतीय उद्योग परसिंघ

- भारतीय उद्योग परसिंघ (CII) सलाहकार और परामर्श संबंधी प्रक्रियाओं के माध्यम से भारत के विकास, उद्योग, सरकार और नागरिक समाज के बीच साझेदारी के लिये अनुकूल वातावरण बनाने का काम करता है।
- CII एक गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी, उद्योग के नेतृत्व वाला और उद्योग-प्रबंधित संगठन है जो भारत की विकास प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका नभिरहा है।
- 1895 में स्थापित भारत के प्रमुख व्यापार संघ के नज्जि और सार्वजनिक क्षेत्रों से SME और MNC सहित लगभग 9000 सदस्य हैं तथा लगभग 265 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय उद्योग नकियों के 300,000 से अधिक उद्यमों की अप्रत्यक्ष सदस्यता है।